



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

10 चैत्र 1932 (श0)  
(सं0 पटना 216) पटना, बुधवार, 31 मार्च 2010

---

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

30 मार्च 2010

सं0 8/नियम संशोधन-05/2009-280(8) रा0—बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 (बिहार अधिनियम 04, 2010) की धारा-1 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2010 से इस अधिनियम को प्रवृत्त करते हैं।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सी0 अशोकवर्धन,

प्रधान सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 216-571+500-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>